

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR



Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

कृपया उपकरण के संचालन से पहले इस मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और आगामी संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।



MFL57840534
Rev.66_04012021

www.lg.com


Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS

	Page No.
1. Identification of Parts	2
2. Safety Instructions	2
3. Warning	3-4
4. Caution	4
5. Installation	5
6. Features	5-6
7. Operations	6
8. Operating Procedure	6
9. Identification of Control	6-7
10. Operations with button	7
11. Smart Function	7-8
12. LED Replacement	8
13. Suggestions on Food Storage	8-9
14. Suggestions	9
15. Disposal of your old appliance	9
16. Self Troubleshooting Guide	10
17. Warranty Card	11

Identification of Parts

Model No. GL-0292/302/322



NOTE!

- Due to continuous improvements at LG, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
- "0" refers to alphabetical character, depending on the model purchased

Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE / प्रयोग से पहले निर्देश पढ़ें।

The following Safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated in to 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

निम्नलिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों का उद्देश्य अप्रत्याशित जोखिम या असुरक्षित या गलत संचालन से क्षति को रोकना है। [दिशा-निर्देशों (नीचे दिये गये) चेतावनी के अनुसार सुरक्षा के लिए मिन करे गये हैं।

- !** This symbol is displayed to indicate matters and operation that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk. यह प्रतीक मामलों और संचालन को इंगित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है जो जोखिम पैदा कर सकता है इस प्रतीक वाले भाग को ध्यान से पढ़ें और जोखिम से बचने के लिए निर्देशों का पालन करें।
- !** **WARNING/ चेतावनी**
This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.
यह इंगित करता है कि निर्देशों का पालन करने में विफलता गंभीर घोट या मृत्यु का कारण बन सकती है।
- !** **CAUTION/ सावधान**
This indicates that failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.
यह इंगित करता है कि निर्देशों को का पालन करने में विफलता मामूली घोट या उत्पाद को नुकसान का कारण बन सकती है।

Disclaimer : The user should follow the instructions as per the owner's manual to avoid any malfunctioning of the product, accident or damage. The manufacturer is not liable for any accident or consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly from the product. The manufacturer's liability is limited only to the extent of repair or replacement of the product as per the terms and condition mentioned elsewhere in the document.

उपयोगकर्ता को उत्पाद की किसी भी खराबी/दुर्घटना या क्षति से बचने के लिए ऑनर मैनुअल में दिये गये निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्माता किसी भी दुर्घटना या परिणाम या परिणामी देयता, संम्पत्ति या जीवन को नुकसान या उत्पाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दस्तावेज में कहीं भी उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्माता की देयता केवल उत्पाद की मरम्मत या प्रतिस्थापन की सीमा तक सीमित है।

⚠ WARNING / चेतावनी

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric, shock, injury or scaling to persons when using this product, follow basic precautions, including the following/ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तिगतों को विस्फोट, आग, बिजली का झटका, चोट, मृत्यु या स्कोलिंग को जोखिम को कम करने के लिए दिव्य, निम्नलिखित साहित्य बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

Risk of Fire and Flammable Materials / आग और ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम




This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care. यह प्रतीक आपको ज्वलनशील पदार्थों के प्रति सचेत करता है जो ज्वलनशील हो सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देते तो आग का कारण बन सकते हैं।


- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. इस उपकरण में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है, लेकिन यह भी ज्वलनशील है। हार्ड से जाले समय और उबरकल को इंट्रॉडू करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट सर्किट के किसी भाग को नुकसान न हो।
 - If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1m² in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. यदि रिसाव का पता चलता है, किसी भी नग्न लौ या ज्वलन के संभावित स्रोतों से बचें और उस कमरे को हवा दें जिसमें उपकरण कई मिनिटों के लिए रखा है। रेफ्रिजरेंट सर्किट में यदि रिसाव होता है तो एक ज्वलनशील मिश्रण और हवा के मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपकरण बिना एयर रीफ्रिजरेंट की मात्रा के अनुपस्थित होना चाहिए। उपकरण के अंदर R600a गैस के प्रत्येक 8g के लिए कमरे का आकार 1m² होना चाहिए।
- Note: Refer refrigerant quantity on Spec Label at the rear of Refrigerator/ रेफ्रिजरेंट की मात्रा रेफ्रिजरेंट के पीछे लगे Spec Label पर देखें**

1. When connecting the power / विद्युत आपूर्ति जोड़ते समय

- The dedicated outlet/socket should be used. निर्धारित आउटलेट/सॉकेट का उपयोग करें।
- Using several devices at one outlet may cause fire. एक ही आउटलेट पर कई उपकरण लगाने से आग लग सकती है।
- Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator. पावर प्लग को मुँह ऊपर की ओर न रखें और न ही रेफ्रिजरेंट के पीछे की ओर सिकोड़ें।
- Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock. प्लग के अंदर पानी जा सकता है या प्लग क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे आग या विद्युत आघात हो सकता है।
- Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected. पावर प्लग पर से पानी या धूल को साफ़ कर लें और सॉकेट में लगाने से पहले पिन टोक से लगी हुई होंनी चाहिए।
- Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock. धूल, पानी या अस्थिर कनेक्शन से आग या विद्युत आघात लग सकता है।
- When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosened, do not use them. जब पावर कॉर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हो या आउटलेट के सुरक्षा ढीले हो तो उन्हें इस्तेमाल न करें।
- It may cause electric shock or short circuit to make fire. इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होने से आग लग सकती है।



- Power supply cord should not be bend or pressed under heavy object. पावर सप्लाय कॉर्ड को किसी भारी चीज से मुड़ने या दबने न दें, इससे वह क्षतिग्रस्त हो जायेगी।
- It may damage the power cord to cause fire or electric shock. इससे पावर कॉर्ड खराब हो सकती है जिससे आग या विद्युत आघात लग सकता है।
- Do not extend or modify the length of the power supply cord. पावर सप्लाय कॉर्ड की लम्बाई को न तो बढ़ाएं और नही काटें बदलाव करें।
- It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others. पावर कॉर्ड के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आघात या आग लग सकती है।
- Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands. भोले हाथों से पावर कॉर्ड को न निकालें और न पावर प्लग को छुएं।
- It may cause electric shock or injury. इससे विद्युत आघात लग सकता है या हानि हो सकती है।
- In order to prevent possible electric shock, Customer must ensure proper earthing in 3-pin Power socket outlet समान बिजली के झटके को रोकने के लिए ग्राहक 3 पिन सांकेट आउटलेट में उचित अर्थिंग सुनिश्चित करें।



- 2. When using the refrigerator / रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते समय This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Mishandling of Refrigerator may cause injury. यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान का अभाव है, जब तक कि उनको उमकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बंधित पर्यवेक्षण या निर्देश न दें। रेफ्रिजरेंट के गलत प्रयोग से चोट लग सकती है।
- Do not place any heavy or dangerous object (container with liquid) on the refrigerator. रेफ्रिजरेंट के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु (तरल पदार्थ का बर्तन) न रखें।
- It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door. रेफ्रिजरेंट का दरवाजा खोलते समय धन्य करने से आग या विद्युत आघात हो सकता है जिससे हानि, आग या विद्युत आघात लग सकता है।




- Do not allow any person except the authorized LG service representative to disassemble, repair or alter the refrigerator. रिपेयर इंजीनियर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से रेफ्रिजरेंट को न खोलें और न ही कोई मरम्मत या परिवर्तन करें।
- It may cause injury, electric shock or fire. इससे चोट या विद्युत आघात लग सकता है।
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलें, बच्चों को निगरानी में रखें।
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorised LG service Representative in order to avoid a hazard. यदि विद्युत आपूर्ति कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो तो खतरने से बचने के लिए उसको निर्माता या LG सर्विस प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।



- If the appliance is equipped with a lock (some models only), keep the key out of reach of children. अगर उपकरण में लॉक (कुछ मॉडल के लिए) लगा हुआ है, तो बच्चों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator or keep them on top inside the refrigerator such as TV, Cooler, Refrigerator, Decoration, Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc. रेफ्रिजरेंट के अंदर विद्युत उपकरण का प्रयोग न करें तथा रेफ्रिजरेंट के ऊपर या अंदर ना रखें जैसे- टीवी, कूलर, मॉडर, सजावट, प्रकाश, हानिकारक रसायन, कपड़ा।
- It may cause explosion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- Do not use the combustible spray near the refrigerator. रेफ्रिजरेंट के पास ज्वलन-शील स्प्रे इस्तेमाल न करें।
- It may cause a fire. इससे आग लग सकती है।
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. निर्माता द्वारा सुझाए गये उपकरणों के अतिरिक्त डिफॉस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य तरीकों का प्रयोग न करें।

- Do not use or store inflammable materials e.g. ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas or spray etc. near or in the refrigerator. ज्वलनशील पदार्थ जैसे ईथर, बेजीन, एल्कोहल, औषधि, एलपी गैस या स्प्रे आदि रेफ्रिजरेंट के पास या अंदर न रखें।
- It may cause explosion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- Do not use appliances for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use. किसी भी उद्देश्य, चिकित्सा के मशाला के लिए उपयोग न करें या (ग्रामीणिक सामग्री या निर्माण) किसी भी परिवर्तन के लिए अन्य सामान्य भंडारण का उपयोग।
- When the materials with strict temperature control, is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause risk. जब कोई नियंत्रण सामान पर सख्त तापमान रेफ्रिजरेंट में रखा जाता है, वह खराब हो सकता है या उससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जिससे कोई भी खतरा हो सकता है।




- Do not place any flame related items like lit candle on top of refrigerator.
किसी भी चीज से सम्बंधित सामान जैसे कि जलाया हुआ मोमबत्ती को रेफ्रिजरेटर के ऊपर न रखें।
- It may cause explosion or fire./इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.
गैस निकलते समय रेफ्रिजरेटर या आउटलेट को न छुएँ और तुरन्त कमरे में हवा आने दें।



- It may cause explosion or fire.
इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- Do not close or cover the exit hole of cold air.
ठंडी हवा निकलने वाले छेदों को बन्द या ढकें नहीं।
It may cause or fire.
इससे आग लग सकती है।

- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.
जब रेफ्रिजरेटर से कोई विचित्र गंध या धुआँ निकलता दिखाई दे तो तुरन्त प्लग रजत निकाल दें और सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।
- It may cause or fire.
इससे आग लग सकती है।



- Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing materials, using at the ship etc.)
गैर घरेलू उद्देश्य (बीमारि रखने, पर्यायों के परीक्षण करने या समुद्र जहाज पर प्रयोग करने) के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल न करें।
- It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.
इससे आशरहित जोखिम जैसे आग, विद्युत आघात, रखे हुए सामान का सड़ना या रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

- Do not spray water at the outside or inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.
रेफ्रिजरेटर के बाहर या अन्दर की तरफ पानी न छिड़कें अथवा बेंजीन या थिन्नेर से साफ़ न करें।
- Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.
विद्युत भागों की इन्सुलेशन क्षय होने पर विद्युत आघात या आग लग सकती है।



- Install the refrigerator on the solid and leveled floor.
रेफ्रिजरेटर को ठोस और समतल फर्श पर ही लगाने।
Installing it on the unstable place may cause danger by falling down the refrigerator when opening or closing the door.
अस्थिर स्थान पर लगाने से खोलते या बन्द करते समय रेफ्रिजरेटर के गिरने से हानि हो सकती है।



- Do not damage the refrigerant circuit.
रेफ्रिजरेट सॉलिट को हानि न पहुँचाएँ।
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
उपकरणों के खास भंडारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न अनुमति मगा हो।
- Keep the ventilation open in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
उपकरण के श्रेय में वेंटिलेशन को खुला रखें या निर्मित संरचना को अवरोधमुक्त रखें।
- Do not pull out the power plug by grasping the cord but the end of the plug.
प्लग रजत करते पकड़कर न निकालें बल्कि प्लग का सिरा पकड़कर ही निकालें।

⚠ CAUTION / सावधानी


To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following./ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तियों को चोट, खराबी या उत्पाद या सम्पत्ति को नुकसान को कम करने लिए दिये गये, निम्नलिखित सहित बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environment.
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environment.
 - bed and breakfast type environment.
 - catering and similar non-retail applications.
- यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निर्माकित) उपयोगों के लिए ही अनुमत्युक्त है।
किचन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिसायनी इलाकों में,
- रेडि रिस्तरांमूलों में,
- खानपान तथा सम्बन्धित नान रिटेल उपयोगों में

- Be careful, while opening and closing the door as it may cause injury to the person around it.
रेफ्रिजरेटर के खोलते या बन्द करने पर लग में खड़े व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें।
Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the chink to be beg hurt by the corner.
खोलने या बन्द करने समय पैर या हाथ दरवाजे की विक्र में फँस सकते हैं या बन्ना कोने से जखमी



- Carry the refrigerator carefully.
रेफ्रिजरेटर को सामायानीयुक्त पकड़कर ले जाएँ।
Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.
अन्यथा आपके हाथ फिसलने से चोट लग सकती है।



- Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.
रेफ्रिजरेटर के अधोभाग के अन्दर हाथ न डालें।
The iron plate of the bottom may slip injury.
अधोभाग में लगी लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।



- Avoid the heating devices near the refrigerator.
गर्म करने वाले उपकरण दूर रखें।
- It may cause fire.
इससे आग लग सकती है।



- Do not install the refrigerator in the wet place where water or rain splashes.
रेफ्रिजरेटर को ऐसे स्थान पर न लगाएँ जो गीला हो या जहाँ पर पानी या बारिश गिरती हो।



- Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.
दुबारा प्लग लगाने से पहले 5 मिनट या उससे ज्यादा रजतजाएँ करें।
It may cause the operation of the freezer to fail.
इससे फ्रीजर का ऑपरेशन असफल हो सकता है।



- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing./ शीशे के बर्तनों, बोतलों या कैन (खास तौर पर जो डिम्ब में कार्बोनाइज्ड पेय पदार्थ होते हैं) को फ्रीजर वाले भाग, उसके खानों या बर्तों के डिम्ब में न रखें ऐसा करने से सामान्य उपमा विन्यु न होने पीला जाएगा।



- It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen./सामग्री के विस्तार के कारण विस्फोट हो सकता है।

- Do not touch food or containers at the refrigerator with wet hands.
गीले हाथों से फ्रिज न रखने वाले वा बर्तन को न छुएँ।
It may cause frostbite
इससे आपका फ्रॉस्टबिट हो सकता है।



- Do not move the refrigerator in running condition.
रेफ्रिजरेटर को चालू स्थिति में स्थानान्तरित न करें।
It may cause electric shock or short circuit to fire.
इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है।



- Do not store explosive substances such as aerosol can with a flammable propellant in this appliance.
इन उपकरणों में विस्फोट पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रोपेलेंट वाले एरोसोल के डिम्ब इत्यादि न रखें।


- Do not put any living animal in the refrigerator.
रेफ्रिजरेटर के अन्दर किसी जीवित प्राणी को न रखें।
It may cause harm of that living animal.
इससे उस जीवित प्राणी को हानि हो सकती है।



- Always remove Gasket when discarding Refrigerator.
रेफ्रिजरेटर को फेंक करते समय गैसिंग रजत करके निकाल लें।


Installation

Refrigerator should be located in properly ventilated area.
रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।



Levelling of refrigerator should be done with front leg.
Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसकी अमीन पर सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।



Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg.

रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर स्थापित न करें जहाँ आगे की सतह पीछे की सतह से 2 डिग्री से अधिक हो।


● After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

उपकरण को इंस्टॉल करने के बाद, बिजली के सॉकेट में प्लग को लगाएं। उपकरण को हटाने और तार निकालने से पूर्व, बिजली के सॉकेट से प्लग निकाल लें।

Dimensions and Clearances / आकार और परिसर

● Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

नाजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दूरी भ्रमिनिष्ठ क्षमता में कमी और बड़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है। उपकरण को इंस्टॉल करते समय हर करीबी दीवार से 500 मिमी से अधिक की दूरी बनाए रखें।



(mm)	GL-322	GL-302	GL-292	GL-322 w/o Handle	GL-302 w/o Handle	GL-292 w/o Handle
A	585	585	585	585	585	585
B	1675	1575	1475	1675	1575	1475
C	703	703	703	669	669	669
D	55	55	55	55	55	55
E	614	614	614	614	614	614
F	648	648	648	614	614	614
G	1025	1025	1025	1025	1025	1025
H	991	991	991	991	991	991

Ambient Temperature / व्यापक तापमान

● The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.

The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

उपकरण को चलाने में सीमा के आधार पर व्यापक तापमानों के एक सीमित दायरे के भीतर संभालित करने के डिजाइन किया गया है। सीमा से अधिक तापमान पर उपकरण का प्रयोग न करें।

आंतरिक तापमान उपकरण की स्थिति के आधार पर प्रभावित हो सकता है, इसमें व्यापक तापमान, दरवाजे को खोलने की आवृत्ति और अन्य कारण शामिल हैं।

The climate class can be found on the rating label / रेटिंग लेबलिका में जलसामु श्रेणी प्राप्त की जा सकती है।

Performance may vary outside specified Ambient Temperature Range/ प्रदर्शन निर्दिष्ट परिसर तापमान सीमा के बाहर भिन्न हो सकते हैं।

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya / *आस्ट्रेलिया, भारत, केन्या

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C. SN से T तक रेट किए गए उपकरणों का उद्देश्य 10°C और 43°C के बीच के व्यापक तापमान में प्रयोग किए जाने के लिए है।

Features

Smart connect feature(For selected models only) / स्मार्ट कनेक्ट फीचर (केवल चुने हुए मॉडलों के लिए)


Minimum Requirement for smart connect: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

स्मार्ट कनेक्शन के लिए न्यूनतम आवश्यकता : यूपीएस/इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति सॉकेट के साथ जुड़े रहने के साथ-साथ कम से कम 120Ah क्षमता की बैटरी और 600VA क्षमता वाला इन्वर्टर होना चाहिए।

- While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product.
इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
- The Smart connect feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
स्मार्ट कनेक्ट फीचर के परिसर, इन्वर्टर पर चल रहे उपकरणों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
- For optimum running of refrigerator during Smart Connect Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
स्मार्ट कनेक्ट मोड के दौरान रेफ्रिजरेटर को अनुकूलतम चलाने के लिए अन्य उपकरण, जो उपयोग में नहीं हैं, को स्थिर ऑफ करने की सलाह दी जाती है।
- It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
खपत से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है।

Deodorizer / डिऑडराइज़र*

- This feature helps in mitigating unpleasant odors.
यह सुविधा अप्रिय गंध को कम करने में मदद करती है।
- Unpleasant odour of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.
फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में खाने की दुर्गन्ध आपको और खाने को कोई नुकसान पहुंचाये बिना ही दूर हो जाती है।
- For better effectiveness deodorizer is placed on return path of air in Refrigerator Compartment.
बेहतर कार्यक्षमता के लिए डिऑडराइज़र को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में हवा के वापसी मार्ग पर रखा जाता है।



How to use / कैसे इस्तेमाल करें

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
क्योंकि फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में हवा प्रवाहित करने के लिए डिऑडराइज़र कुलिंग एयर इनलेट में स्थित होता है, इसलिए किसी विशेष रख-रखाव की आवश्यकता नहीं है।
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.
कुलिंग एयर इनलेट में कोई नुकीली चीज न घुमाएं क्योंकि इससे डिऑडराइज़र नुकृत हो सकता है।
- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.
किसी जड़ गन्ध वाले खाद्य को रेफ्रिजरेटर में रखते समय उसे सेलैट में या किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें क्योंकि इससे उसकी गन्ध दूसरे खाद्य को प्रभावित कर सकती है।

Re-Using of Deodorizer / डिऑडराइज़र का पुनः इस्तेमाल

- Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
कुछ दूरी पर रहे क्योंकि गन्ध तीव्र होती है। डिऑडराइज़र को दुबस्त करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

Door Cooling* (Optional) / कूलिंग (वैकल्पिक)*

- Cool air vent is placed in the refrigerator compartment to provide cool air to the Door Shelves.

Cool air vent रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट के अन्दर लगाई जाती है जिससे कोर शैल्वज को ठंडी हवा मिलती रहे।

If foreign substance enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.

सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी cool air vent में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए सफाई के दौरान सावधानी बरतें।



Door Alarm / डोर अलार्म*

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound.

जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो अलार्म बज जाएगा।



Egg-cum-Ice Tray / अण्डा एवं आइस ट्रे*

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.


इसका इस्तेमाल अण्डे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कर्फ बनाने के लिए भी किया जा सकता है।



Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर*

It helps in keeping vegetables fresh and avoid getting rotten by holding moisture.

यह सब्जियों को ताजा रखने में मदद करता है और नमी होने पर सड़ने से बचाता है।



Humidity Controller / ह्यूमिडिटी कंट्रोलर*

- Humidity can be controlled in vegetable box by adjusting the humidity control switch to left/right.

ह्यूमिडिटी कंट्रोलर स्वीच को बाई/दाई समायोजित करके वेजीटेबल बॉक्स के अन्दर नमी का आर्द्रता का नियंत्रित किया जा सकता है।

*In selected models only/केवल चुनिंदा मॉडलों में।



Operations/प्रचालन

STARTING / चालू करना

When your refrigerator is firstly installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

जब आपका रेफ्रिजरेटर पहली बार इंस्टॉल हो तो 24 घण्टे तापमान स्थिर होने के बाद ही ताजा या फ्रोजन खाद्य पदार्थ रखें।

If you are leaving the appliance turned off for an extended period (3days or more), remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.

आगर आप उपकरण को 3 दिन या उससे अधिक समय तक बंद करने की इच्छा रखें, तो खाने की समस्त वस्तुएं निकाल लें और बिजली के तार को बाहर कर दें। अंदर के भाग को साफ कर दें, और उपकरण में मोल्ड बनने से बचाव के लिए दरवाजों को हल्का सा खुला रखें।

The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

उपकरण में स्वचालित डिफॉस्टिंग सिस्टम निश्चित करता है कि उपकरण के भाग में सामान्य संचालन स्थितियों में कर्फ के जमाव से बचत रहता है।

Operating Procedure

DEFROSTING / डीफॉस्टिंग

- Defrosting takes place automatically, डिफॉस्टिंग अपने आप होती है।
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the Refrigerator and is evaporated automatically. डिफॉस्ट होने पर पानी वाष्पक ट्रे में बह जाता है जो रेफ्रिजरेटर की नीचे की तरफ होती है और स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।

LOCKING / UNLOCKING*

Press & turn the lock with key for locking / unlocking.



लाक लगाना / खोलना*

खोलने और बन्द करने के लिए लाक की चाबी को दबाकर घुमाएं।



Identification of Control (With Button)


TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE CONTROL (with Display Button)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temperature Control display button respectively.

रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण डिस्प्ले बटन को क्रमिक रूप से दबाकर रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट को तापमान नियंत्रित किया जाता है।

- Initially set the Refrigerator and Freezer Temperature Control Display at "3" level.

प्रारंभिक रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर तापमान नियंत्रण डिस्प्ले को "3" स्तर पर सेट करें।



CONVERTIBLE

Convertible Button for 3 second. Freezer LED will be OFF & Convertible LED will be ON. कन्वर्टिबल मोड के लिए कन्वर्टिबल बटन को 3 सेकंड तक दबा कर रखें, फ्रीजर को एल.ई.डी. आन हो जाएगी।

SUPER CHILL MODE

For Super Chill mode Press Super Chill button for 03 Second, Super Chill LED will be ON. Super Chill LED can be switched OFF by pressing Super Chill button again for 3 second.

रेफ्रिजरेटर खण्ड में सेटी से टेंडा करने के लिए सुपर चिल बटन को 3 सेकंड तक दबा कर रखें, सुपरचिल फिज की एल.ई.डी आन हो जाएगी। सुपर चिल बटन को दोबारा 3 सेकंड तक दबा कर रखने से सुपर चिल एल.ई.डी. को बन्द कर सकते हैं।

	Freezer Button फ्रीजर बटन				Refrigerator Button रेफ्रिजरेटर बटन			
Summer गर्मी	Cold	Coldest	Convertible	Freezer Convertible	Cold	Coldest	Super Chill	Fridge Super Chill
Monsoon मानसून	Cold	Coldest	Convertible	Freezer Convertible	Cold	Coldest	Super Chill	Fridge Super Chill
Winter सर्दी	Cold	Coldest	Convertible	Freezer Convertible	Cold	Coldest	Super Chill	Fridge Super Chill
Fast Cooling तेज कूलिंग	Cold	Coldest	Convertible	Freezer Convertible	Cold	Coldest	Super Chill	Fridge Super Chill

Freezer
Convertible

Convertible

Fridge
Super Chill

Super Chill

Note : During high humid conditions minor dew may form on the surface of the refrigerator, which is normal phenomenon. It should be cleaned with dry & soft cloth.

नोट : अधिक आर्द्रता की वजह से दरिआन प्रक्रिया की वजह पर पानी की छोटी-छोटी बूंद बन सकती है जोकि सामान्य प्रक्रिया है। इसे सूखे व मुलायम कपड़े से साफ कर लेना चाहिए।

OPERATION (with buttons)

CONTROL FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT / रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का नियंत्रण

■ Method of Operation / ऑपरेशन की विधि

The temperature of Refrigerator Compartment is automatically controlled by software.

Pressing the ① button, sets the Freezer temperature.

Pressing the ② button, sets the Fridge temperature, designated to a selected notch. (※ Each time you press the button, a short beep will sound)



रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही नियंत्रित रहता है।


① बटन को दबाकर रखने पर फ्रीजर का तापमान सेट होता है। ② बटन को दबाकर रखने पर फ्रिज का तापमान सेट होता है जो एक चुनी हुई नाच पर निर्धारित किया जाता है। (※ प्रत्येक बार आपके द्वारा बटन दबाने पर, एक छोटी बीप ध्वनि सुनाई देगी)

■ Operation Indicator / ऑपरेशन सूचक

Each time the temperature button is pressed, the LED glows in sequence 5hown and the temperature is selected accordingly by the software. And if no more pressure detected for 10 seconds, then the selected temperature is applied to system (Comp On / OFF control).

प्रत्येक बार जब तापमान बटन को दबाया जाता है तो LED दर्राएँ गये क्रम में चमकती हैं और तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा उसी प्रकार से चुना जाता है। और यदि 10 सेकेंड तक कुछ और अधिक दबाव का पता नहीं चलता है तब निर्धारित तापमान सिस्टम के लिए लागू रहता है।

(COMP ON / OFF नियंत्रण)



■ MEMORY BACK-UP / मेमोरी बैकअप

In case of power failure, your refrigerator will keep previous setting in memory and as soon as the power On, your last refrigerator settings will be restored.

विद्युत क्लिफ्लसाओं के दौरान, आपका रेफ्रिजरेटर पूर्व निर्धारित सेटिंग को मेमोरी में रखेगा और जैसे ही रेफ्रिजरेटर दुबारा चालू होगा, आपकी अंतिम रेफ्रिजरेटर सेटिंग पुनः विद्यमान हो जायेगी।

Convertible (①) (3 sec) / कन्वर्टिबल (①) (3 सेकेंड)

■ When you press and hold this button 3 seconds to convert the freezer room into the fridge room, the Convertible display will be on and freezer display will be off.

फ्रीजर रूम को फ्रिज रूम में कन्वर्ट करने के लिए आपको द्वारा यह बटन 3 सेकेंड तक दबाकर रखने पर कन्वर्टिबल डिस्प्ले चालू होगा और फ्रीजर डिस्प्ले बंद होगा।

■ (※ When you use freezer room to convert to fridge mode, we recommend to keep the food stuff (Especially vegetable) with using plastic container or box.)

(आपके द्वारा फ्रिज मॉड को कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजर रूम का उपयोग करने पर हम भोजन सामग्री (विशेष तौर पर सब्जियाँ) को प्लास्टिक कन्टेनर या बाक्स का प्रयोग करके रखने की अनुमति करते हैं।)

■ Danger of explosion/ विस्फोट का खतरा

When you cancel this function, glass bottle containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer room.

जब आप फंक्शन को रद्द करते हैं, तो फ्रीज किए गए सामान वाले तरल पदार्थ को रखने वाली कांच की बोतल को फ्रीजर रूम में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए।


■ Super Chill () (3second) / सुपर चिल () (3 सेकेंड)

SUPERCHILL mode accelerate the cooling rate of refrigerator for 2 hours. If the SUPERCHILL button is pressed SUPERCHILL feature is activated.

सुपरचिल मॉड रेफ्रिजरेटर की ठंडक दर को 2 घंटे तक बढ़ा देता है। सुपरचिल बटन को दबाने पर सुपरचिल फीचर क्रियान्वित हो जाती है।

SUPERCHILL LED can be switched OFF by pressing Super chill button again for 3 second.

सुपर चिल बटन को दोबारा 3 सेकेंड तक दबा कर रखने से सुपर चिल एल.ई.डी. को बंद कर सकते हैं।



■ Adjusting the Fridge Temperature / फ्रीजर के तापमान का समायोजन

If the food in the refrigerator is not as cold as you would like or if you wish to lower the temperature of the refrigerator, set temperature on fifth notch.

If food in the refrigerator is frozen or if you wish to increase the temperature of the freezer, set temperature from range between first and second notch.

यदि रेफ्रिजरेटर में भोजन ठंडा करना नहीं होना चाहिये तब आप करना चाहते हैं या यदि आप रेफ्रिजरेटर का तापमान कम करना चाहते हैं, तो तापमान को पांचवें नाच पर सेट करें।

यदि रेफ्रिजरेटर में भोजन जम गया है या आप फ्रीजर का तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो पहले और दूसरे नाच के बीच की श्रेणी पर तापमान सेट करें।

● If the room temperature is lower than 10°C, do not set temperature from range between first and second notch. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance./ यदि कमरे का तापमान 10°C से कम है, तो पहले और दूसरे नाच के बीच की श्रेणी से तापमान सेट नही करें। अन्यथा रेफ्रिजरेटर के कार्यप्रदर्शन में समस्याएँ हो सकती हैं।

● When the room temperature is higher than 35°C, set temperature from range between fourth and fifth notch. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance./ जब कमरे का तापमान 35°C से अधिक हो तो तापमान को चौथे और पांचवें नाच के बीच की श्रेणी पर सेट करें।

SMART FUNCTIONS (OPTIONAL)

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the or logo.

यह सुविधा केवल इन या वाले मॉडल से साथ उपलब्ध है।

The LG ThinQ application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ एप्लिकेशन आपको स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले उपकरण के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

सुविधाजनक स्मार्ट सुविधाओं का उपयोग करते हुए स्मार्टफोन से उपकरण के साथ संवाद करें।

Smart Diagnosis

• If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

यदि आप उपकरण का उपयोग करते समय किसी समस्या का अनुभव करते हैं तो यह स्मार्ट-डायग्नोसिस सुविधा आपको समस्या का निदान करने में सहायता करेगी।

NOTE

• The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.

अनुपयोग उपकरणों/संशोधनों को सूचना के बिना उपकरण सुधार प्रयोजनों के परिवर्तन के अधीन है।

• Functions may vary by model.

कार्य मॉडल से भिन्न हो सकते हैं।

Installing the LG ThinQ Application

Search for the LG ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the

application.

स्मार्टफोन पर [google play store](#) या [apple play store](#) से एप्लिकेशन को खोजें।

एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

• Run the LG ThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

LG ThinQ एप्लिकेशन को चलाएं और उपकरण को पंजीकृत करने के लिए एप्लिकेशन के निर्देशों को पालन करें।

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the or logo.

यह सुविधा केवल इन या वाले मॉडल से साथ उपलब्ध है।

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

अपने उपकरण के समस्याओं का निवारण करने में आपकी सहायता के लिए इस सुविधा का उपयोग करें।

NOTE

• For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local appstore policy, or app unavailability.

LGE की त्रुटिबन्ही के कारण नहीं, कारणों के लिए, सेवा बाहरी कारणों के लिए कि संघटित नहीं हो सकती है, लेकिन यह सीमित नहीं है, वाई-फाई अनुपलब्धता, वाई-फाई विच्छेद, स्थानीय ऐपस्टोर नीति, या एप्लिकेशन अनुपलब्धता।

• The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

सुविधा पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हो सकती है आपके पास स्थित होने के आधार पर एक अलग रूप हो सकता है।

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Case 1: Model with Door Switch.

1. Open all the doors of the Refrigerator. (रिफ्रिजरेटर के सभी दरवाजों को खोलें)
 - Smart Diagnosis can be input even Test Mode and Error status. टेस्ट मोड और एरर स्टेटस के स्मार्ट डायग्नोसिस का इनपुट भी हो सकता है।
2. Press the door switch 5 times within 8 seconds
 - 8 सेकेंड के भीतर 5 बार दरवाजा स्विच दबाएं।



3. Place the phone near the speaker hole. (फोन को स्पीकर होल के पास रखें।)
 - Do not take away the phone while data is being transmitted. (डेटा प्रसारित होने के दौरान फोन को दूर न रखें।)
 - During the data transmission for smart diagnosis, hold the phone near the speaker hole and avoid any background noises. (स्मार्ट डायग्नोसिस के लिए डेटा ट्रांसमिशन के दौरान, फोन को स्पीकर होल के पास रखें और किसी भी पृष्ठभूमि शोर से बचें)



4. When Smart Diagnosis is input, buzzer let you know by ringing 4times. (स्मार्ट डायग्नोसिस इनपुट होता है, बज्जर आपको 4 बार बजता है।)
5. After inputting Smart Diagnosis, Smart Diagnosis buzzer will ring. (स्मार्ट डायग्नोसिस इनपुट करने के बाद स्मार्ट डायग्नोसिस बज्जर बज जाएगा।)
6. After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application. (डेटा ट्रांसफर होने के बाद डायग्नोसिस को एप्लिकेशन में प्रदर्शित किया जाएगा।)

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted. सर्वोत्तम परिणामों के लिए फोन को स्थानांतरित न करें जबकि स्वर संचारित हो रहे हैं।

ICE MAKING / बर्फ जमाना

Double Twist Ice Tray / डबल ट्विस्ट आइस ट्रे

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position./ आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से भरें और उसे उचित स्थिति में रखें।
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box. आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे के लीवर को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स आइस ट्रे से गिर जाएंगे।
- Fill the water upto water level mark in the ice tray/ आइस ट्रे में पानी को स्तर चिह्न तक पानी भरें।



Instruction for Ice Bank / आइस बैंक के लिए निर्देश

- Use Ice Bank Only To Store Ice Cubes. Do Not Make Ice In It. As It May Break. आइस बैंक सिर्फ आइस क्यूब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जमाना। क्योंकि यह टूट सकता है।

Note: If the user uses, any utensils other than ice tray supplied with the appliance for ice-making purpose, then the time taken for ice-making may vary, as per customer usage./यदि उपयोक्तारों बर्फ बनाने के उद्देश्य से उपकरण के साथ आपूर्ति की गयी बर्फ की ट्रे के अलावा किसी भी बर्तन का उपयोग करता है, तो ग्राहक के उपयोग के अनुसार बर्फ बनाने का समय अलग-अलग हो सकता है।

LED Replacement

This product applies LED light which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

यह LED लैम्प जो उपयोक्तारों द्वारा बदला नहीं जा सकता। लैम्प बदलने के लिए अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients./ रिफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनाइल से लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को गायब होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption. / गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रिफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency. अपने रिफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही शेल्स या प्लास्टिक की पन्थियों से रील्स को ढकें क्योंकि इससे रिफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।



Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise. रिफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। दरवाजा खोलने से गर्म हवा रिफ्रिजरेटर के अंदर प्रवेश कर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator. दरवाजे को अच्छे से बन्द कर लें ताकि आपके LG रिफ्रिजरेटर की कैंबिनेट और गैसकेट के बीच जगह ना रहे।



Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic net bags This will help in retaining its freshness for a longer period of time. खाद्य पदार्थों के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक जाल थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc. रिफ्रिजरेटर में ऐसे खाद्य पदार्थ न रखें जो कम तापमान पर आसानी से खराब हो जाते हैं, जैसे केला, अनामस आदि।




Do not store glass bottles in the freezer compartment - they may break when frozen. ग्लास बोतलों को फ्रीजर कम्पार्टमेंट में बर्तन के बर्तन में न रखें - ये जमने पर टूट सकती हैं।




Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.

रिफ्रिजरेटर के गहरे आंतरिक शैल्स में नम खाद्य पदार्थ रखने से बचें। अति ठंडी हवा से सीधे सम्पर्क से न जम सकते हैं। इससे बचने के लिए यह बेहतर है कि खाद्य पदार्थ ढक्कन वाले बर्तन में ही रखें।



It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the doorway from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

वेजिटेबल स्टोर कम्पार्टमेंट में रखने के लिए नम खाद्य पदार्थ (विशेषतः फल व सब्जियाँ) अपेक्षित हैं। यदि रिफ्रिजरेटर की किसी शैल्स पर खाद्य पदार्थ रखना आवश्यक हो तो शैल्स के बगल दरवाजे के समीप ही रखें, इससे खाद्य पदार्थ रिफ्रिजरेटर में ठंडे प्रवाह से जमने से बचा रहेगा।



When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh longer. अण्डों को उनके स्टोरेज ट्रे पर रखते समय यह निश्चित कर लें कि वे ताजे हैं और उनको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखें जो उनको ज्यादा समय तक ताजा रखता है।



If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature. अगर उपकरण में फ्रिज वाले भाग हैं, तो उच्च नमी वाली सब्जियों और फलों को फ्रिज वाले भाग में स्टोर करने के कारण वे सब जम सकते हैं।

- You should avoid door openings while the power is off / बिजली बंद रहने के दौरान आपको दरवाजा खोलने से बचना चाहिए।
- When the power supply gets back to normal, check the condition of the food / जब बिजली की आपूर्ति सामान्य हो जाए, तो खाने की वस्तुओं की स्थिति जाँच लें।

Suggestions

It is recommended to use Voltage stabilizer (0.5K VA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (100-310V)**. Stabilizer usage increases the refrigerator life. यह बिजली चार-चार कम या ज्यादा आ रही है या निश्चित वोल्टेज क्षमता (100-310V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज रेगुलेटर (0.5KVA) का प्रयोग करें। रेगुलेटर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।



As per LG Test Standards, एलजी मानक के अनुसार।

Cleaning

When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.

- This may cause discoloration or damage to the appliance.
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.



सफाई

उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेतु खुरदरा ब्रश, दूधरेट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ युक्त सफाई एजेंट का उपयोग न करें।

- इससे उपकरण में रंग मलिनिकरण या क्षति हो सकती है।
- ज्वलनशील पदार्थ: एल्कोहल (इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रॉपिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इत्यादि) थिंनर, व्हाइटिंग, बेंजीन, ज्वलनशील तरल, अपघर्षक, आदि।

During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period (more than or equal to 3 days), remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.



अवकाश के दौरान

औसत अवकाश के दौरान रहने के अलावा रोगों को बचाने के लिए, फ्रिज वाले सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय (3 दिन से अधिक या उसके बराबर) के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल दें तथा विद्युत् तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे 6-8 घंटे तक चलता रहे।

Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.



स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षात्मक रूप से कम दो आदमी लम्बे चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित न करे।

In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.

बिजली की कटौती के समय में, बिजली कंपनी को फोन करें और पूछें वे कटौती कब तक रहने वाली है।

Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.



रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएँ।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Do's
 - a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
 - b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional / unreparable so as to prevent its accidental breakage.

Don't

- a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabirwala.
 - c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
 4. Hazards of improper handling or accidental breakage
 - a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), spilling out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - b. The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
 5. *This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011*.
 6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999. For details, All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.
 7. when disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the door.
 8. When you want to dispose the refrigerator, contact to Customer Care Center.

For more detailed information, please visit: <http://www.lg.com/in>

9711709999 (LG WhatsApp No.)

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



1. जब इस तरह के चिह्न आपके पुराने उपकरण और इसके ऑपरेटर की पुस्तिका में सामान्य रूप से दिखाए जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि इसे 'ई-अपशिष्ट' (जिसमें आई हार्डवेयर) नियम 2011 के अनुसार संग्रहित किया जाना है, और इसे नवीनीकरण, विनिर्माण और निपटारे के लिए भेजा जाना है।

2. Do's
 - a. उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुन-नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारा करने हेतु हस्तान्तरित करें।
 - b. उपकरण को अलग से रखें ताकि इसे अनियंत्रित रूप से नष्ट करने से बचा जा सके।

ना करें-

- a. इस उपकरण को खरब/खुद नही खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोलना जाना चाहिए।
 - b. इस उपकरण को पुन-बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीदार/भार-वाला /अनधिकृत व्यक्ति को न दें।
 - c. इस उपकरण को किसी भी अनधिकृत संग्रहण के साथ निपटारा न करें।
 - d. उपकरण को बंद नही हो आसानी से खोलने के खतरे से बचें न करें।
3. यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति के द्वारा निपटारा किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
 4. दुर्घटनाग्रस्त टूट-फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव।
 5. रेफ्रिजरेटर (R134a) यदि समझ में अधिक आता है तो, फ्रिजर आना व फ्रिजर में गैस भरना हो सकती है, तरल पदार्थ का संपर्क करने से चक्कर, सिरदर्द व अलसता का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर (R600a) का गैस से संपर्क होने से आंख लस सकती है तथा आँसू भी खरब हो सकती है।
 6. साइक्लोपेन्टेन गैस ज्वलनशील तरल व वाष्पित होने के कारण ज्वलित जीवन के लिए काफी खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का कारण बनता है।
 7. उपकरण को नष्ट करने से पहले तरलवायु से वाष्पित होने से गैरकृत निकाल दें।
 8. जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करने या तो ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र से संपर्क करें:

<http://www.lg.com/in>

9711709999 (LG WhatsApp No.)

Self Troubleshooting Guide / स्वतः समस्या - समाधान गाइड

Check yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. There is no Refrigeration or cooling	<ul style="list-style-type: none"> Power Interruption Power Supply Off Fuse Blown/Circuit breaker tripped Stabilizer not working 	<p>Check Power of other appliances; Call an electrician to resolve.</p> <p>Check if the power plug is plugged into outlet properly & check that the fuse is intact in the supply line.</p> <p>Replace the fuse or reset circuit breaker. Do not increase fuse capacity. In case of circuit overload – call an electrician. Appliance maybe connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) . Reset circuit breaker – If problem persists, contact an electrician.</p> <p>Plug power cord to socket directly and check. If refrigerator works, then get stabilizer checked by Stabilizer repairing Centre.</p>
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> Low Voltage. 	<p>Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.</p>
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	<ul style="list-style-type: none"> Restriction of cold air circulation. Improper setting of Freezer Temperature Control / Refrigerator Temperature Control. Entry of hot air. Storing hot foods. 	<p>Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.</p> <p>Set the Refrigerator Temperature Control button to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temperature Control button to be adjusted accordingly.</p> <p>Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors.</p> <p>Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.</p>
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> High humidity during monsoon season. 	<p>During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.</p>
5. Refrigerator Compartment Overcooling	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect setting of Refrigerator Temperature Control button. 	<p>Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temperature Control button to make the Refrigerator Compartment warmer.</p>
6. Smell	<ul style="list-style-type: none"> Improper covering and wrapping of food. 	<p>Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.</p>
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect setting of Freezer Temperature Control Knob. Bowls used 	<p>For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temperature</p> <p>Use Ice trays for ice making</p>
8. Noise	<ul style="list-style-type: none"> Normal cut-off/ cut-in noise 	<p>Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.</p>

स्वयं चैक करें

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. कोई रेफ्रिजरेशन या कूलिंग नहीं है	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत व्यधान विद्युत आपूर्ति बन्द फ्यूज उड़ गया/सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया स्टेबिलाइजर काम नहीं कर रहा है कम वोल्टेज 	<p>अन्य उपकरणों की शक्ति की जाँच करें, हल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। यह जाँच कर लें कि क्या पावर प्लग को आउटलेट में ठीक से लगाया गया है और यह भी जाँच लें कि आपूर्ति लाइन में फ्यूज अशुभ है।</p> <p>फ्यूज को बदलें या सर्किट ब्रेकर को रीसेट करें। फ्यूज क्षमता को न बढ़ाएं। सर्किट अधिभार के मामले में, किसी उपकरण इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें जो सम्भवतः ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर से जुड़ा हो। सर्किट ब्रेकर को रीसेट करें – यदि समस्या बनी रहती है तो किसी इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें। पावर कोर्ड को सीधे सर्किट में लगाएं और जाँचें। अगर रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर रिपैरिंग सेंटर द्वारा स्टेबिलाइजर की जाँच करवाएं। मेन्स में लाईन – करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।</p>
2. रेफ्रिजरेटर धालू होने लगता है पर काम नहीं करता	<ul style="list-style-type: none"> ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन गर्म हवा का प्रवेश गर्म भोजन का भंडारण 	<p>बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें।</p> <p>रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5-7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब के द्वारा नियंत्रण करें। बार-बार दरवाजा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है, दरवाजा कम से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें, रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।</p>
3. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	<ul style="list-style-type: none"> मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता 	<p>मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी हिस्से में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं। रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1-3 तक रखें।</p>
4. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट – अधिक ठंडा होना	<ul style="list-style-type: none"> ख़ाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति 	<p>खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें, तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।</p> <p>बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को नियंत्रित करें।</p>
5. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट – अधिक ठंडा होना	<ul style="list-style-type: none"> फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति 	<p>बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।</p>
6. गंध का होना	<ul style="list-style-type: none"> ख़ाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति 	<p>कम्प्रेसर के धालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर धालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।</p>
7. बर्फ और आइस क्रीम के गठन में कठिनाई	<ul style="list-style-type: none"> बर्तनों का उपयोग सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/धालू होने की आवाज 	<p>बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।</p> <p>कम्प्रेसर के धालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर धालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।</p>
8. आवाज	<ul style="list-style-type: none"> बर्तनों का उपयोग सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/धालू होने की आवाज 	<p>बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।</p> <p>कम्प्रेसर के धालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर धालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।</p>

Disclaimer: These are only meant for reference purposes. In case problem still persist please contact to service centre. Normal visit charges may apply/ये केवल सन्दर्भ उद्देश्यों के लिए हैं, यदि समस्या अभी भी बनी हुयी है, तो कृपया सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। सामान्य यात्रा शुल्क लागू।

WARRANTY CARD

The LG Refrigerator (hereinafter referred as product) comes with 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Bulb, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year from the date of purchase on producing the tax paid invoice provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer showing the Additional warranty on compressor as specified below shall be on fulfilling the above mentioned conditions. Additional warranty of either 4 years or 9 years on compressor shall depend upon the model you have purchased as it vary from model to model.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR or 9 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON INVERTER COMPRESSOR (depends upon model purchased)

The 4 year or 9year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/ Gas charging will be charge to customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as PCB assembly, condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Centre. Service outside municipal limit will attract to and fro travelling, other incidental expenses in addition to visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of cost, but service charges shall always be payable by the customer.

Common TERMS & CONDITIONS applicable for warranties as mentioned above:

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out through the Authorized Service Centres of LG Electronics India Pvt.Ltd. (hereinafter referred as LG or LGEIL). Customer may place their service call through the LG customer care or through the dealer from whom the product has been purchased. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact our helpline.
3. Repair under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helplines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Centre, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service centre and bring the unit to the authorized service at its own cost and risk. All expense incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service centre, as well as expenses incurred with deputing of service personnel/technician toward conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service centre will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service centre.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service centre, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the units are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEIL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product/customer abuse/repairs by un-authorized personnel/s/ misuse detected/ by the Authorized Service Centre personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect being noticed in the equipment during warranty period Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Centre reserves the right to retain any part/s or component replaced its discretion, in the event of defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be chargeable basis except the component which actually needed.
14. Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
15. Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
16. Warranty shall expire after the warranty period as mentioned above even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason.
17. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.
18. Warranty is not applicable in any of the following cases where:
 - a) the warranty card is not completed properly at the time of purchase,
 - b) the completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product,
 - c) the product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet/Owner's Manual,
 - d) the product is used for commercial purposes,
 - e) the product has failed under certain conditions like water logging , flood , fire , misuse etc.,
 - f) defects/malfunction are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel,
 - g) any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel,
 - h) defect/malfunction are caused which are beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God, virus etc.,
 - i) any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc.,
 - j) defects/malfunction caused while in transit to service centre or purchaser's residence,
 - k) defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/Insects/animals/birds etc.,
 - l) the serial number is deleted, defected or altered,
 - m) damage is caused to the product or any part/s due to transportation or shifting,
 - n) use of knife or sharp instrument is used to remove the ice trays or Ice from the freezer or to remove the frost mechanically and as a result Compressor, Evaporator, Condensers, capillary, suction line & other related items get spoiled,
 - o) any accessory external to the equipment are supplied by dealer or LG,
 - p) any issue of Wi-Fi connectivity or compatibility with other products or software's is there,
 - q) any loss of data.

MODEL No. : _____
UNIT SERIAL No. : _____

CUSTOMER'S COPY

DATE OF PURCHASE : _____

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS _____ _____
TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS _____ _____
TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature



MFL57840534

LG Electronics India Pvt. Ltd.

Phone	1800-315-9999, 1800-180-9999 24 hours, 7 days a week (except for national holidays)
WhatsApp No.	9711709999
SMS	5757554
Mobile Application	'LG Service India Mobile App' available at Google Play
SNS	www.facebook.com/lgindiapage www.twitter.com/LGIndia
Address	Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A-24/6, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 CIN No. U32107DL1997PTC220109